

ओम शांति ।

5 जून 2018

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू इंटरनेशनल हेड क्वार्टर के प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा कमला नगर स्थित विश्व शांति भवन आगरा सब जोन हेड क्वार्टर पर केंद्र सरकार राज्य सरकार बैंक एवं विभिन्न निकायों एवं संस्थानों के प्रशासकों कार्यपालिका एवं प्रबंधकों के लिए "स्व शासन से सु प्रशासन" विषय पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया

इस सत्र की मुख्य वक्ता ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम की निदेशिका राजयोगिनी बीके आशा दीदी रहे।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भ्राता के राम मोहन राव डिविजनल कमिश्नर आगरा रहे। विशिष्ट अतिथि शशांक शेखर जी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गौरव दयाल जिलाधिकारी आगरा, सीताराम मीणा पूर्व कमिश्नर एवं वर्तमान पीठासीन अधिकारी लेबर कोर्ट आगरा रहे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता आगरा सब जोन प्रभारी बीके शीला बहन जी ने की । कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं एवं विभागों के प्रशासकों एवं प्रबंधकों की सम्माननीय उपस्थिति रही। सभी ने आशा दीदी को बहुत ध्यान से सुना सभी ने स्वयं पर नियंत्रण की सकारात्मक चिंतन एवं राजयोग के अभ्यास द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की सहज विधि को पूरी तन्मयता के साथ ग्रहण किया। आशा दीदी ने बताया कि अगर आप अच्छे प्रशासक बन जाते हैं तो अपने अंदर के गुण कार्यस्थल पर स्वतः ही दिखाई देने लग जाते हैं।

संयुक्त सचिव शशांक शेखर जी ने कार्यक्रम के अंत में कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला देश एवं दुनिया में शांति स्थापित करना प्रशासकों का बहुत बड़ा कर्तव्य है। हिंसक होते जा रहे समाज को सुधारने का समाधान हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान संस्कृति एवं अध्यात्म ही दे सकता है। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी को मिलकर अध्यात्म के मार्ग पर चलना होगा ।

जिलाधिकारी आगरा गौरव दयाल ने इस कार्यशाला को प्रशासकों के लिए बहुत ही प्रभावकारी बताया तथा ब्रह्माकुमारी संस्था का आभार व्यक्त किया ।

कमिश्नर के राममोहन राव ने कहा कि जब तक मन पर कंट्रोल नहीं है तब तक आप में निपुणता नहीं आ सकती।

पूर्व कमिश्नर सीताराम मीणा जी ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग आपकी निर्णय क्षमता एवं प्रशासनिक क्षमता में बहुत ही मददगार बनता है।

सब जोन प्रभारी शीला बहन जी ने आशीष वचन दिए तथा संयुक्त सब जोन प्रभारी बीके कविता बहन ने सामूहिक राजयोग का अभ्यास करा कर सभी को गहन शांति की अनुभूति कराई। बी के अमर भाई ने कार्यक्रम का संचालन किया एवं नंदकिशोर मंघरानी भाई ने धन्यवाद दिया।

बी के अश्विना बहन जी ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताया एवं बीके ज्योत्स्ना बहन ने शब्दों द्वारा सभी का स्वागत किया। कालंदी डांस ग्रुप के बच्चों ने नृत्य प्रस्तुति दी

दीप प्रज्वलन

बाएं से दाएं

बी के ज्योत्स्ना बहन, DM Agra भ्राता गौरव दयाल, भ्राता के राम मोहन राव डिविजनल कमिश्नर, भ्राता शशांक शेखर ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार, दिल्ली, बीके शीला बहन, बी के आशा बहन जी, भ्राता सीताराम मीणा, बी के कविता बहन, भ्राता नंदकिशोर मं घ रानी ।